

(SET D)

Your Roll. No.....

Sr. No. of Question Paper: 13364

Unique Paper Code : 2274002003

Name of the Paper : Essentials of Economics

Name of the Course : Generic Elective

Semester : III/V/VII (NEP-UGCF)

Duration : 3 hours

Maximum Marks : 90 Marks

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on the receipt of the question paper
2. The paper contains 6 questions. All questions carry equal marks.
3. Wherever mentioned please use diagrams. Marks will be deducted if diagrams are not used.
4. Answers may be written either in English or Hindi, but the same medium should be used throughout the paper.

DO ANY FIVE QUESTIONS OUT OF SIX

Q1. (a) What do the following signify?

- (i) Movement from one point on the production possibility curve (PPC) to another.
- (ii) Movement from a point within the frontier to a point on the frontier.

(b) Explain the concept of scarcity and opportunity cost. What are rational choices? Give examples.

(9+9)

Q2. (a) The quantity of wheat demanded in quintals in a market is given by the equation

$Q_d = 3000 - 3p$, the supply is given as $Q_s = 7p$. Determine the market-clearing price and the quantity demanded. Show it diagrammatically.

(b) Distinguish between price-floor and price-ceiling. Use appropriate diagrams.

(9+9)

Q3. (a) Explain the short run equilibrium in a perfectly competitive market. Show that a competitive firm always operates at its optimal capacity in the long run. Use appropriate diagram.

(b) State the differences between a Monopoly firm and an oligopoly firm. Explain the theory of contestable markets.

(9+9)

Q4. (a) What is the effect on the equilibrium wage when there is an increase in labour supply due to population growth? Use suitable diagram.

(b) Explain the concept of consumer surplus and producer surplus. What happens to consumer surplus and producer surplus when there is an imposition of a tax by the government?

(9+9)

Q5 (a) Explain the expenditure approach of measuring Gross Domestic Product. What are the limitations in measuring GDP?

(b) Explain the macroeconomic equilibrium in the short-run and the long-run with the help of aggregate demand and aggregate supply curves. Show the effect of an increase in government expenditure on the equilibrium. Use suitable diagrams.

(9+9)

Q6. Write short notes on any 2:

(a) Comparative advantage and absolute advantage.

(b) Demand-pull and Cost-push inflation.

(c) Circular flow of income in a 4-sector economy

(9+9)

उम्मीदवारों के लिए निर्देश

1. प्रश्नपत्र प्राप्त होते ही शीर्ष पर अपना रोल नंबर लिखें।
2. इस प्रश्नपत्र में 6 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न समान अंक वहन करते हैं।
3. जहाँ भी उल्लेख किया गया है, कृपया आरेखों का उपयोग करें। आरेख न बनाने पर अंक काटे जाएंगे।
4. उत्तर अंग्रेज़ी या हिंदी – किसी एक माध्यम में लिखें, और पूरे प्रश्नपत्र में वही माध्यम बनाए रखें।

छ: में से किसी भी पाँच प्रश्नों का उत्तर दें

Q1.

(a) निम्नलिखित क्या दर्शाते हैं?

(i) उत्पादन संभाव्यता वक्र (PPC) पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चलना।

(ii) सीमा के भीतर के किसी बिंदु से सीमा (फ्रंटियर) पर किसी बिंदु की ओर जाना।

(b) दुर्लभता (Scarcity) और अवसर लागत (Opportunity Cost) की अवधारणा समझाइए। तर्कसंगत विकल्प (Rational Choices) क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए।

(9+9)

Q2.

(a) एक बाज़ार में माँगी गई गेहूँ की मात्रा (क्विंटल में) समीकरण

$$Q_d = 3000 - 3p$$

द्वारा दी गई है, और आपूर्ति

$$Q_s = 7p$$

द्वारा दी गई है। बाज़ार-क्लीयरिंग मूल्य (Market-Clearing Price) तथा माँगी गई मात्रा ज्ञात कीजिए। आरेख द्वारा दिखाइए।

(b) न्यूनतम मूल्य (Price Floor) और मूल्य-सीमा (Price Ceiling) के बीच अंतर बताइए। उपयुक्त आरेखों का उपयोग करें।

(9+9)

Q3.

(a) पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाज़ार (Perfect Competition) में अल्पावधि संतुलन (Short-Run Equilibrium) समझाइए। यह भी दिखाइए कि दीर्घावधि में प्रतिस्पर्धी फर्म हमेशा अपनी इष्टतम क्षमता (Optimal Capacity) पर संचालित होती हैं। उपयुक्त आरेख बनाएँ।

(b) एकाधिकार (Monopoly) और अल्पाधिकार (Oligopoly) फर्म के बीच अंतर बताइए। प्रतिद्वंद्वी बाज़ार (Contestable Markets) के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।

(9+9)

Q4.

(a) जनसंख्या वृद्धि के कारण श्रम-आपूर्ति बढ़ने पर संतुलन मजदूरी (Equilibrium Wage) पर क्या प्रभाव पड़ता है? उपयुक्त आरेख का प्रयोग करें।

(b) उपभोक्ता अधिशेष (Consumer Surplus) और उत्पादक अधिशेष (Producer Surplus) की अवधारणाएँ समझाइए। सरकार द्वारा कर लगाने पर उपभोक्ता व उत्पादक अधिशेष में क्या परिवर्तन होता है?

(9+9)

Q5.

(a) सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के मापन की व्यय पद्धति (Expenditure Approach) समझाइए। जीडीपी के मापन में क्या-क्या सीमाएँ होती हैं?

(b) समष्टि मांग (AD) और समष्टि आपूर्ति (AS) वक्रों की सहायता से अल्पावधि तथा दीर्घावधि समष्टि-संतुलन समझाइए। सरकारी व्यय में वृद्धि होने पर संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे उपयुक्त आरेख सहित दिखाइए।

(9+9)

Q6.

किसी भी दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:

(a) सापेक्ष लाभ (Comparative Advantage) और निरपेक्ष लाभ (Absolute Advantage)

(b) माँग-जनित (Demand-Pull) और लागत-जनित (Cost-Push) मुद्रास्फीति

(c) चार-क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था (4-Sector Economy) में आय का चक्रीय प्रवाह (Circular Flow of Income)

(9+9)